

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरात्र कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(AMiniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/331

दिनांक - 13/10/2017

प्रेस विज्ञप्ति

### जवाहरनगर ने जीता सीएसआर ग्रामीण बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मंच प्रदान करने हेतु समय-समय पर सीएसआर ग्रामीण प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। इसी क्रम में कंपनी के कृष्णशिला क्षेत्र की सीएसआर टीम ने शुक्रवार को डॉ. अंबेडकर विद्यालय, जवाहरनगर में सीएसआर ग्रामीण बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। फाइनल में मेजबान जवाहरनगर ने मिसरा गांव की टीम को हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। कृष्णशिला क्षेत्र के स्टाफ अधिकारी (खनन) श्री एस. पी. यादव ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रतियोगिता में मिसरा, घरसड़ी, चंदुवार, कोहरौल, कोहरौलीया और जवाहरनगर सहित कुल 6 गांवों की बालिका टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों की बालिकाओं ने बेहद उत्साह के साथ प्रतियोगिता में उम्दा कबड्डी का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता नॉकआउट आधार पर खेती गई। पहला मैच मिसरा और घरसड़ी गांवों की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें मिसरा ने 60-33 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दूसरे मैच में कोहरौल ने चंदुवार को 58-16 से आसानी से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

पहला सेमीफाइनल मिसरा और कोहरौलीया की टीमों के बीच खेला गया। मिसरा के टीम ने मैच में 41-12 से जीत दर्ज कर प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। दूसरे

दूसरे सेमीफाइनल में जवाहरनगर और कोहरौल के बीच मुक़ाबला हुआ, जिसमें जवाहरनगर ने 58-19 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में जवाहरनगर एवं मिसरा के बीच अच्छी कबड्डी देखने को मिली, जिसमें अंततः मेजबान जवाहरनगर 59-36 से विजयी बना।

प्रतियोगिता के सभी मैचों के दौरान कृष्णशिला क्षेत्र के आस-पास के ग्रामीण भरी संख्या में मौजूद रहे और उन्होंने प्रतियोगिता का जमकर लुत्फ उठाया।

जनसंपर्क अधिकारी